

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 11—अगस्त 17, 2018 (श्रावण 20, 1940)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 11—AUGUST 17, 2018 (SHRAVANA 20, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

(प्रशासन अनुभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2018

सं. ए. 39011/17/16- प्रशा. .— अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर, 31 जुलाई, 2018 के अपराह्न से, श्री विजय कश्यप, अवर सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है।

शिवेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 39011/17/16- प्रशा. .—अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर, 31 जुलाई, 2018 के अपराह्न से, श्री जग मोहन, अवर सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है।

शिवेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

सं. ए-34011/3/16-प्रशा.—श्री गोपाल कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी, 19.7.2018 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 01.08.2018 के पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

शिवेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-34011/3/16-प्रशा.— श्रीमती फुलवा देवी, सहायक अनुभाग अधिकारी, 01.08.2018 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 01.08.2018 के पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी नियुक्त की गई हैं।

शिवेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-34011/3/16-प्रशा.—श्रीमती मरियम्मा जोसेफ, अनुभाग अधिकारी और श्रीमती उषा शशिधरन, अनुभाग अधिकारी, 19.7.2018 के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 01.08.2018 के पूर्वाह्न से अवर सचिव नियुक्त किए गए हैं।

शिवेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव (प्रशा.)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

फा. सं. ए. 12023/16/2005-प्रशा. III(वि. का.).— अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री बिजेन्द्र पाल जैन, लेखा सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण दिनांक 28 मार्च, 2018 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

सुनील सचदेवा
अवर सचिव

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)
(प्रशासनिक प्रभाग)
नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

सं. डीपी/कार्मिक-1/2018/2901/03/53/2014. – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19/06/2018 के आदेश संख्या 221/25/2017-एवीडी-II (बी) के अनुसरण में श्री नीरज अग्रवाल, पुलिस उपाधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, बी.एस. मुंबई को दिनांक 29/06/2018 से उनकी सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है, इसलिए वह भविष्य में सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए साधारणतः अयोग्य होंगे।

डी.पी.सिंह

प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)के. अ. ब्यूरो, मु. नई दिल्ली

गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2018

सं. आई-14011/4/2018-आईपीएस-1(I).-भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 25.06.2018 को चयन समिति की दिनांक 18.05.2018 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2017 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा में कुल 1 मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2017

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	दिवाकर शर्मा	21.09.1975

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

सं. आई-14011/4/2018-आईपीएस-1(II).-राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के वि. नियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2017

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	दिवाकर शर्मा	21.09.1975

3. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

4. यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

विदेश मंत्रालय
(पीबी-11 अनुभाग)
नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

सं. 01/पीबी-11/2018.—विदेश मंत्रालय में कार्यरत श्री एस. सुंदराचारी, निजी सचिव [जन्म तिथि 03.03.1958] पूर्व निजी सचिव [भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग में ग्रेड-I आशुलिपिक] अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् 31 मार्च, 2018 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

जितेन्द्र कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-11)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2018

अधिसूचना सं. 01/2018, फा. सं. ए-39012/3/207-एडी. VI ए.- भारत के राष्ट्रपति, डॉ. प्रशान्त खाम्बरा (04099) अपर आयकर आयुक्त का, केन्द्र सरकार की सेवा से 03.02.2017 (अपराह्न) से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

योगेश शर्मा
अवर सचिव

नई दिल्ली, 31 मई, 2018

अधिसूचना सं. 02/2018, फा. सं. ए-39012/3/207-एडी. VI ए.- भारत के राष्ट्रपति, श्री पंकज सिंघानिया, (सिविल कोड-02034) अपर आयकर आयुक्त (न्यायिक), कोलकत्ता का, केन्द्र सरकार की सेवा से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

योगेश शर्मा
अवर सचिव

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

अधिसूचना सं. 2018 की 03, फा. सं. ए-38012/15/2018-प्रशा. VI क .-भारत के राष्ट्रपति, श्री रघुवीर सिंह डागुर (01018) अपर सीआईटी, जयपुर का, केन्द्र सरकार की सेवा से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

योगेश शर्मा
अवर सचिव

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

अधिसूचना सं. 2018 की 04, फा. सं. ए-39012/01/2018-प्रशा. VI क .-भारत के राष्ट्रपति, श्री राहुल सिंह, ए.सी.आई.टी.(140सी.ए.), मुम्बई का केन्द्र सरकार की सेवा से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

योगेश शर्मा
अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

सं. ए. 19011/08/2018-प्रशा.-राजपत्रित - राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून, 2018 के आदेश सं. 36/02/2018-ईओ(एसएम-1) के अनुसरण में, श्री सी.एस. महापात्रा, भा.आ.से. (86) को दिनांक 02.07.2018 के पूर्वाह्न से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोबा बेसिल
अवर सचिव

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2018

सं. ए. 19011/09/2018-प्रशा.-राजपत्रित - राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून, 2018 के आदेश सं. 36/02/2018-ईओ(एसएम-1) के अनुसरण में, श्री के. राजारमन, भा.प्र.से. (तमिलनाडु:89) को दिनांक 06.07.2018 के अपराह्न से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोबा बेसिल
अवर सचिव

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

सं. ए-31013/1/2018/गुप ए/1185-99.—राष्ट्रपति समय-समय पर यथासंशोधित भासिलेसे (समूह 'क') भर्ती नियमावली 2006 के नियम 7 के प्रावधानों के अधीन भासिलेसे के 2014 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से मूल क्षमता में कनिष्ठ समयमान में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 में नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	मूल नियुक्ति की तारीख
1.	श्री शकील मकबूल, भासिलेसे (2014)	05.08.2017
2.	डा.मनीष द्विवेदी, भासिलेसे (2014)	05.08.2017
3.	सुश्री दीप्ति जिंदल, भासिलेसे (2014)	21.05.2017
4.	सुश्री दीप्ति गर्ग, भासिलेसे (2014)	03.03.2018
5.	श्री चंदन मित्तल, भासिलेसे (2014)	21.12.2017
6.	श्री मो. शाहिद कमल अंसारी, भासिलेसे (2014)	27.02.2017
7.	सुश्री कार्तिका जे. कुमार, भासिलेसे (2014)	26.07.2017
8.	श्री नवनीत कुमार, भासिलेसे (2014)	05.08.2017
9.	श्री नरिंदर पाल सिंह, भासिलेसे (2014)	16.01.2017
10.	सुश्री पूर्वा मीना, भासिलेसे (2014)	08.04.2017

रोखुम ललरेमरूआता
उप महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

सं. ए-11019/01/2018-ईजी.—राष्ट्रपति, श्री अशोक शंकरराव चनोरे को दिनांक 02.07.2018 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 15,600 – 39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) (संशोधन-पूर्व) (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11- संशोधित) के वेतनमान में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - II का कार्यालय, महाराष्ट्र, नागपुर में कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं

हरि किशोर
अवर सचिव

सं. ए-11019/01/2018-ईजी.—राष्ट्रपति, श्री दीपक कुमार ढींगरा को दिनांक 11.06.2018 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक 15,600 – 39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) (संशोधन-पूर्व) (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11- संशोधित) के वेतनमान में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, पंजाब, चंडीगढ़ में कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरि किशोर
अवर सचिव

सं. ए-11019/01/2018-ईजी.—राष्ट्रपति, श्रीमती सुधा कानन को दिनांक 08.06.2018 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 15,600 – 39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) (संशोधन-पूर्व) (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11- संशोधित) के वेतनमान में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, तमिलनाडु, चेन्नै में कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरि किशोर
अवर सचिव

ए-11019/01/2018-ईजी.—राष्ट्रपति, श्रीमती कैसर मर्ज़वान खैराबादी को दिनांक 02.07.2018 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 15,600 – 39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) (संशोधन-पूर्व) (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11- संशोधित) के वेतनमान में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - I का कार्यालय, महाराष्ट्र, मुंबई में कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरि किशोर
अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)
नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

सं. ए-11011/1/2018-स्थापना.—राष्ट्रपति, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में श्री अरुण यादव, गैर-सरकारी व्यक्ति को दिनांक 01.05.2018 से लेवल-11 (रु. 67,700-2,08,700/-) में माननीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) के अपर निजी सचिव के रूप में मंत्री जी के साथ को-टर्मिनस आधार पर या मंत्री जी के अपर निजी सचिव के रूप में उनके द्वारा कार्य समाप्त करने या आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी.पी.एन. सिंह
अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)
नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

सं. ए-32011/01/2018-स्था. .—राष्ट्रपति, इस विभाग में वैज्ञानिक 'डी' के रूप में कार्यरत नीचे दर्शाए गए को दिनांक 1 जुलाई, 2018 से तथा आगामी आदेशों तक, संशोधित सुनम्य अनुपूरक स्कीम (एम.एफ.सी.एस.) के अंतर्गत इन-सीटू पदोन्नति होने पर वेतन स्तर-13 (123100-215900/- रुपये) में इस विभाग में वैज्ञानिक 'ई' के रूप में नियुक्त करते हैं।

- (1) डॉ. वैशाली पंजाबी
- (2) डॉ. सुरक्षा एस. दीवान
- (3) डॉ. मनोज सिंह रोहिल्ला
- (4) डॉ. शहाजुद्दीन अहमद
- (5) डॉ. नीलू श्रीवास्तव
- (6) डॉ. काकली डे दासगुप्ता
- (7) डॉ. रजनीश कुमार गौड़

(8) डॉ. विनीता नीतिन चौधरी

(9) डॉ. ओमकार नाथ तिवारी

जे. पी. मीणा

अवर सचिव

सं. ए-32011/01/2018-स्था.—राष्ट्रपति, इस विभाग में वैज्ञानिक 'ई' के रूप में कार्यरत डॉ. गुलशन वाधवा को दिनांक 1 जुलाई, 2018 से तथा आगामी आदेशों तक, संशोधित सुनम्य अनुपूरक स्कीम (एम.एफ.सी.एस.) के अंतर्गत इन-सीटू पदोन्नति होने पर वेतन स्तर-13 ए (131100-216600/- रुपये) में इस विभाग में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. पी. मीणा

अवर सचिव

आयुष मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2018

फा. सं. ए. 18011/4/2006-ई.1.- राष्ट्रपति बड़े दुख के साथ घोषित करते हैं कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कार्यरत डॉ. वदुदुल हसन, चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) का 6.5.2015 को निधन हो गया है।

यश वीर सिंह

अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र)

कोलकाता, 11 जुलाई, 2018

सं.वी.ई.सी.सी./पदोन्नति/2018/1828.—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता, के निम्नलिखित उत्कृष्ट वैज्ञानिक को इसी केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 16 में अतिविशिष्ट वैज्ञानिक के पद पर जुलाई 1, 2018 से नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन मैट्रिक्स का लेवल
1.	श्री अमिताभ राय	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	1

सी.वी.एस. शास्त्री

प्रशासनिक अधिकारी-III

कोलकाता, 12 जुलाई, 2018

सं.वी.ई.सी.सी./पदोन्नति/2018/1984.—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती उर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता, के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/एच को इसी केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 15 में उत्कृष्ट वैज्ञानिक के पद पर जुलाई 1, 2018 से नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन मैट्रिक्स का लेवल
1.	डॉ. जाने आलम	वैज्ञानिक अधिकारी/एच	14

सी.वी.एस. शास्त्री
प्रशासनिक अधिकारी-III

कोलकाता, 13 जुलाई, 2018

सं.वी.ई.सी.सी./पदोन्नति/2018/1889.—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती उर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता, के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी को इसी केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में तकनीकी अधिकारी(डी) के पद पर जुलाई 1, 2017 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन मैट्रिक्स का लेवल
1.	श्री सुभद्रत मजूमदार	तकनीकी अधिकारी (सी)	10

सी.वी.एस. शास्त्री
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं.वी.ई.सी.सी./पदोन्नति/2017/1891.—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती उर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता, के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में वैज्ञानिक अधिकारी (ई) के पद पर जुलाई 1, 2017 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन मैट्रिक्स का लेवल
1.	डॉ. अरिंदम कुमार सिकदर	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	11
2.	श्री शुएब अहमद खान	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	11
3.	श्री यंशवत कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	11
4.	श्री शब्यसाची चटर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	11
5.	श्री रणदेव दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	11
6.	श्री सुधांशु श्रीवास्तव	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	11

सी.वी.एस. शास्त्री
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं.वी.ई.सी.सी./ पदोन्नति/2017/1891.—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती उर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता, के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में वैज्ञानिक अधिकारी (ई) के पद पर जुलाई 1, 2017 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन मैट्रिक्स का लेवल
1.	डॉ. मनीष कुमार झा	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	10
2.	श्री अरिजित सेन	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	10
3.	कु. एकता नंदी	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	10
4.	श्री कलावलापुडी श्रीहरि	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	10

सी.वी.एस. शास्त्री
प्रशासनिक अधिकारी-III

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2015

सं. ए. 32011/09/2013-स्था.।.— वर्ष 2012 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति सीएसएस के निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों को दिनांक 23/02/2015 से अथवा अगले आदेशों तक 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री/डॉ.)	सीएसएस सं.
1.	अर्नब झाकी	8452
2.	सुभेन्दु दास	8459

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2015

सं. ए. 22011/05/2013-स्था.।.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2013-सीएस.।(यू) दिनांक 22.05.2015 के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों को दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिवों के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है:

क्रम सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	सीएसएस सं.
1.	अचिंत कुमार	8550

2.	आलोक जवाहर	8318
3.	ए.के.गोपाल	8474
4.	अर्नब ढाकी	8452
5.	बी. के. शर्मा	8406
6.	सी.पी.रत्नाकरम	8264
7.	दौलत राम	8300
8.	दीप चंद लाकरा	8759
9.	एच.एम.सोनकुसारे	8031
10.	किरन के. अरोडा	8224
11.	के.डी. वर्मा	8510
12.	मनोज कुमार शुक्ला	8716
13.	पी. भक्तवत्सलम	8322
14.	राजेश साम्पले	8748
15.	राजेश कुमार मौर्य	8204
16.	सचिन अरोडा	8717
17.	एस.के. नारायण	8590
18.	शुभेंदु दास	8459
19.	सुशान्त कुमार साहा	8635

2. उपर्युक्त नियुक्ति, उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस के ग्रेड-I में बरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2015

सं. ए. 22011/05/2013-स्था.।.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2013-सीएस.।(यू) दिनांक 22.05.2015 के अनुसरण में और इस मंत्रालय की दिनांक 29.07.2015 की समसंख्यक अधिसूचना का आंशिक अधिक्रमण करते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों को दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिवों के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है:

क्रम सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	सीएसएल सं.
1.	अचिंत कुमार	8550
2.	आलोक जवाहर	8318
3.	ए.के.गोपाल	8474
4.	बी. के. शर्मा	8406
5.	सी.पी.रत्नाकरम	8264
6.	दौलत राम	8300
7.	दीप चंद लाकरा	8759

8.	एच.एम.सोनकुसारे	8031
9.	किरन के. अरोडा	8224
10.	के.डी. वर्मा	8510
11.	मनोज कुमार शुक्ला	8716
12.	पी.भक्तवत्सलम	8322
13.	राजेश साम्पले	8748
14.	राजेश कुमार मौर्य	8204
15.	सचिन अरोडा	8717
16.	एस.के. नारायण	8590
17.	सुशांत कुमार साहा	8635

2. उपर्युक्त नियुक्ति, संवर्ग में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन-सूची में शामिल किए जाने या सीएसएस के संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। तदर्थ नियुक्ति, किसी समय भी बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2015

सं. ए. 32011/09/2013-स्था.।.—वर्ष 2013 की चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-। में नियुक्ति के लिए श्री राजेश सांप्ले का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री राजेश सांप्ले, (सीएसएस सं. 8748) को 31/08/2015 से अथवा अगले आदेशों तक 6600/- रूपए के ग्रेडवेतन सहित वेतन बैंड -3 में नियमित आधार पर सीएसएस में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

सं.एफ.15-2905/2015-ई.।.—सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के कार्यालय आदेश संख्या 12015/03/2014-आईएसएस के अनुसरण में और राष्ट्रीय सांख्यिकीय सिस्टम प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) से दिनांक 23.12.2015 (अपराह्न) से कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप, सुश्री रुचिका शर्मा, आईएसएस के जेटीएस (प्रोवेशनर) को वेतन बैंड-3(15600-39100) + ग्रेड वेतन 5400 में 23 दिसम्बर, 2015 की (अपराह्न) से अगले आदेशों तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

सं. ए 22011/05/2013 -स्था.।.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 5/8/2013-सीएस.।(यू) दिनांक 07.12.2015 के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों को दिनांक

30.06.2016 तक की अवधि तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिवों के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है:

क्रम सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	सीएसएल सं.
1.	एच.एम.सोनकुसारे	8031
2.	एस.के.नारायण	8590
3.	सुशांत कुमार साहा	8635
4.	मनोज कुमार शुक्ला	8716
5.	सचिन अरोड़ा	8717
6.	कुंदन नाथ	8780
7.	विकास त्रिपाठी	8804
8.	संजय कुमार	8854

2. उपर्युक्त नियुक्ति, उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

सं. फा. 32011/11/2014-स्था-I.— राष्ट्रपति, श्री कार्तिकेय धनजी बुद्धाभट्टी, भा.प्रशा.सेवा (बिहार : 2008) को मंत्री के कार्य-काल तक अथवा 30.06.2016 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त नहीं कर देते, इनमें से जो भी पहले हो, को-टर्मिनस आधार पर अवर सचिव स्तर पर (पीवी.3, 15,600-39,100 रु. + 6,600 रु. (जी.पी) पर माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सं.एफ. 15-2876/2015-स्था.I.— डॉ. सुभाष चंद्र खुंटिया, आईएएस (कर्नाटक:81) समय से पूर्व अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने के परिणामस्वरूप वे सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, से 30.09.2016 (अपराह्न) से कार्यमुक्त हो गए हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

सं.ए. 32011/5/2015.— राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 03.10.2016 के कार्यालय आदेश सं. 12015/02/2014-आईएसएस (भाग-1) के अनुसरण में श्री अमित कमल, आईएसएस को उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 21 अक्टूबर, 2016 (अपराह्न) से या अगले आदेशों तक उपनिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2016

सं.ए. 32011/5/2016-ई.।.—वर्ष 2014 बैच के आईएसएस अधिकारियों की अल्पावधि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि के समापन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिकारी जो वर्तमान समय में उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सहायक सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, 31.10.2016 अपराह्न से कार्यमुक्त हो जाएंगे:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/सुश्री)	कैडर
1.	सुश्री प्रेरणा शर्मा	(एएम)
2.	सुश्री मोनिका प्रियदर्शिनी	(एजीएमयूटी)
3.	सुश्री निमा अरोड़ा	(एमएच)
4.	श्री प्रदीपकुमार मासिलमणि	(टीएन)

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

सं. एफ. 15-2960/2017-स्था-।.— राष्ट्रपति श्री संजय कुमार, आईएसएस (एनएल:92) को रु. 10,000/- (संशोधित पे मैट्रिक्सस लेवल-14) के ग्रेड वेतन के साथ 37,400-67,000/- रु. (पीवी-4) के पे बैंड में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) में दिनांक 18.01.2017 की पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री जान-ए-आलम, आईएसएस (एनएल : 1991) के स्थान पर संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2017

सं. एफ. 15-2961/2017-स्था-।.—राष्ट्रपति **श्री अजय तिकी, आईएस (म.प्र.:1987)** को श्री वाई.एस.के शेषु कुमार, आईएस (यूपी : 1987) के स्थान पर 30.01.2017 की पूर्वाह्न से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में **संयुक्त सचिव** के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

सं. ए. 32011/5/2014-स्था-।.— इस मंत्रालय की दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, उप शिक्षा सलाहकार के रूप में डॉ. नसीम अहमद, सहायक शिक्षा सलाहकार की तदर्थ नियुक्ति के कार्यकाल को वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 में 05.02.2017 से एक और वर्ष की अवधि या जब तक नियमित व्यवस्था नहीं की जाती है अथवा अगले आदेशों तक, के लिए आगे बढ़ाते हैं।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2017

सं.ए. 32011/1/2017.— सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं.12015/01/2017-आईएसएस दिनांक 28.02.2017 के जरिए आईएसएस के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में उनकी पदोन्नति और दिनांक 03.03.2017 (अपराह्न) को पद का कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति **सुश्री आर. सावित्री, आईएसएस** को 3 मार्च, 2017 के अपराह्न से या अगले आदेशों तक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

सं. एफ.15-2965/2017- स्था-।.—राष्ट्रपति **श्री मधु रंजन कुमार, आईआरएसएस (1984)** को दिनांक 30.06.2021 को उनकी सेवा-निवृत्ति की अवधि तक अथवा दो वर्ष की अवधि के लिए निदेशक स्तर के पद को अस्थायी रूप से स्तरोन्नत करके (श्री आलोक मिश्रा, आई एस (1998) के स्थान पर रिक्त) अगले आदेशों तक अथवा संयुक्त सचिव की नियमित रिक्ति होने तक, जो भी पहले हो, दिनांक 01.05.2017 अपराह्न से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

सं.ए. 32011/9/2016-स्था.।.—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आदेश संख्या 12016/1/2016-एसएसएस दिनांक 20 अप्रैल, 2017 तथा सं. 11015/1/2017-एसएसएस दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के द्वारा 'अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवाएं (एसएसएस)' के तहत श्री राजेश कुमार की वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (एसएसओ) के रूप में नियमित पदोन्नति के फलस्वरूप राष्ट्रपति महोदय दिनांक 04.05.2017 अपराह्न अथवा आगामी आदेश जारी होने तक उन्हें उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी से वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (एसएसओ) (राजपत्रित) के पद पर पे मेट्रिक्स में वेतन स्तर -7 पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 24 मई, 2017

सं.ए. 32011/9/2016-ई.।.—सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आदेश सं. 12016/1/2016-एसएसएस दिनांक 20 अप्रैल, 2017 और सं. 11015/1/2017-एसएसएस दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के तहत अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) के वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (एसएसओ)(राजपत्रित) के रूप में इनकी नियमित प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री जगदीश कुमार, कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी को 05.05.2017 की अपराह्न से या अगले आदेशों तक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पे मेट्रिक्स में पे लेवल-7 में वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (एसएसओ)(राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

फा.सं.ए. 32011/2/2017-स्था.।.—राष्ट्रपति 2015-बैच के निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में दिनांक 03.07.2017 (पूर्वाह्न) से 29.09.2017 अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कैडर
1.	श्री स्वप्निल टेम्बे	एएम
2.	सुश्री थमीम अंसारिया ए	यूपी
3.	श्री संदीप कुमार	पीबी
4.	सुश्री नीतिका खंडेलवाल	यूडी
5.	श्री स्मृतिरंजन मोहंती	डब्ल्यूबी

अचिंत कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

फा.सं.ए. 32011/3/2017-स्था.।.—राष्ट्रपति 2015-बैच के निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों को उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में दिनांक 03.07.2017 (पूर्वाह्न) से 29.09.2017 अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कैडर
1.	श्री लक्ष्मीकांत रेड्डी जी	केएन
2.	श्री सुधाकर शिंदे	टीआर
3.	श्री प्रणय सिंह	यूपी
4.	श्री राजू मिश्रा	डब्ल्यूबी

अचित कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

सं.ए. 32011/09/2014-स्था.।.—महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अजय तिर्की, आईएएस (म. प्र.:1987), को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 26 जुलाई, 2017 के अपराह्न से एतद्वारा उनके कार्य से मुक्त किया जाता है।

अचित कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

फा.सं.ए. 32011/2/2017-स्था.।.—मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक सचिवों (2015 बैच के आईएएस) की अल्प-कालिक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप, इन्हें दिनांक 29-09- 2017 अपराह्न से कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कैडर
1.	श्री स्वप्निल टेम्बे	असम
2.	सुश्री थमीम अंसारिया ए	उत्तर प्रदेश
3.	श्री संदीप कुमार	पंजाब
4.	सुश्री नीतिका खंडेलवाल	उत्तराखंड
5.	श्री स्मृतिरंजन मोहंती	पश्चिम बंगाल

अचित कुमार
अवर सचिव

फा.सं.ए. 32011/3/2017-स्था.।.—मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक सचिवों (2015 बैच के आईएएस) की अल्प-कालिक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप, इन्हें दिनांक 29.09.2017 अपराह्न से कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कैडर
1.	श्री लक्ष्मीकांत रेड्डी जी	कर्नाटक
2.	श्री सुधाकर शिंदे	त्रिपुरा
3.	श्री प्रणय सिंह	उत्तर प्रदेश
4.	श्री राजू मिश्रा	पश्चिम बंगाल

अचिंत कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2017

सं. ए. 32011/8/2014-ई-।.— राष्ट्रपति महोदय, डॉ. एन. श्रवण कुमार, भा. प्र. सेवा (बिहार: 2000) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (1,44,200-2,18,200 रुपए) में दिनांक 27.09.2017 के पूर्वाह्न से कुल पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 23.07.2019 अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2017

सं. ए. 11011/1/2016 —स्था-।(पार्ट).—मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) के वैयक्तिक स्टाफ में ग्रेड वेतन (जीपी) 6600 रु. सहित पीबी-3 (स्तर-11) में विशेष ड्यूटी अधिकारी श्री अश्वनी कुमार, भा.प्रशा.सेवा (एएम : 2010) को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

अचिंत कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सं.ए.32011/9/2014-स्था-।.—राष्ट्रपति, श्री बी. शशांक शेखर, आईएएस (एनएल:1996) को कुल पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 16.11.2019 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सुश्री अनीता करवाल, आईएएस (जीजे:1998) के स्थान पर लेटरल शिफ्ट आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 [1,44,200-2,18,200 रुपए] में दिनांक 24.11.2017 अपराह्न से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018

सं.ए.32011/8/2014-स्था.।.—राष्ट्रपति, दिनांक 28.02.2018 को श्री केवल कुमार शर्मा भा.प्रशा.सेवा (यूटी: 83) की अधिवर्षिता पर श्री आर. सुब्रह्मण्यम, भा.प्रशा.सेवा (एपी: 85), विशेष सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग को दिनांक 01.03.2018 (पूर्वाह्न) से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी.शशि कुमार

उप सचिव

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

एफ.15-2995/2018-ई.।.—राष्ट्रपति केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री राजीव नारायण, अनुभाग अधिकारी को 05/03/2018 (पूर्वाह्न) से 30.6.2018 तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सीएसएस (अवर सचिव) के ग्रेड-। में नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.02.2018 के आदेश संख्या 5/7/2016-सीएस.।(यू) के अधीन होगी।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

सं.ए.32011/8/2014-स्था.।.—राष्ट्रपति, श्री गिरीश सी. होसुर, आईएफओएस (एचपी:1996) को पांच वर्ष की कुल अवधि अर्थात् 20.03.2021 तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 [1,44,200 रु.- 2,18,200] में दिनांक 31.03.2018 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

सं.ए.32011/7/2017-स्था.।.—राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार शर्मा, आईटीएस (1990) को मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर या जब तक मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त नहीं कर देते हैं या अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, के लिए दिनांक 28.11.2017 (पूर्वाह्न) से निदेशक स्तर [पीबी-4+जीपी- 8700/-] (पूर्व संशोधित) [पे मैट्रिक्स का स्तर -13] पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (सत्य पाल सिंह) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग में निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल जो अन्यथा 23.06.2018 को समाप्त हो जाना था, तदनुसार कम किया जाता है।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

सं. ए. 32011/8/2014-ई.।.— राष्ट्रपति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अस्थायी रूप से अंतरित रिक्त एचएजी स्तर के पद पर दिनांक 02.04.2018 (पूर्वा.) से श्री वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव (आईईएस:1985), आर्थिक सलाहकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, को सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-15 (1,82,200 - 2,24,100 रुपए) में उच्चतर शिक्षा विभाग में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2018

सं. 32011/10/2017-स्था.।.— राष्ट्रपति, श्री बी.के. भट्टी, सहायक शिक्षा सलाहकार (तकनीकी), उच्चतर शिक्षा विभाग, को 06.07.2018 के अपराह्न से छह माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति, अधिकारी को इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति हेतु दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए समाप्त किया जा सकता है।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

(उत्तर प्रदेश राज्य एकक)

लखनऊ, 4 जुलाई, 2018

सं. पीएफ/1222/एनआईसी/2018-प्रशा.— राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश राज्य एकक, लखनऊ में कार्यरत श्री सुमित कुमार त्रिपाठी, वैज्ञानिक-एफ, कर्मचारी कोड -1222 का स्वर्गवास दिनांक 31/05/2018 को हो गया है।

अबू बकर

वैज्ञानिक-ई

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

सं. ईआरबी-1/2018/2/59.— राष्ट्रपति जी, श्री एस. एन. अग्रवाल, आईआरएसई, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, को 20.07.2018 के अपराह्न से सदस्य (कार्मिक), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रंजनेश सहाय

सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(स्थापना- (II) बी)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

सं. ए-32011/01/2016-ई(II)बी.— सचिव, श्री जेम्स तिडू, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को दिनांक 20.06.2018 से अगले आदेशों तक पे मैट्रिक्स के लेवल-7 में सामान्य केंद्रीय सेवा के तकनीकी अधिकारी, समूह 'ख' राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर
उप सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

सं. 49/9/2018-प्रशा.1.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20/1/2018-ईओ (एमएम -1) दिनांक 13.07.2018 के अनुपालन में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री प्रशांत एन, आईएएस (केएल: 2007) को नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) में उप सचिव के रूप में 30.07.2018 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है।

अरविन्द पोखरियाल
अवर सचिव

कार्यालय – प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा

भुवनेश्वर, 10 जुलाई, 2018

स्था.आ.सं.27.—दिनांक-02.07.2018 के का.आ.ग.सं.-292 में दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप श्री अनिरुद्ध प्रधान, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक-02.07.2018 (पूर्वाह्न) से अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एवं उनके वरियता के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन मैट्रिक्स सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के स्तर-9 (रु.53,100-1,67,800/-) में पदोन्नति महालेखाकार सहर्ष प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति अस्थायी आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

दिनांक-02.07.2018 के का.आ.ग.सं.-292 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

हस्ता/-
दिनमणि मल्लिक
उपमहालेखाकार(प्रशासन)

भुवनेश्वर, 25 जुलाई, 2018

स्था.आ.सं. 33.—दिनांक-13.07.2018 को जारी का.आ.ग.सं.-353 के तहत दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप श्री चित्त रंजन पात्र, सहायक लेखा अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अर्थात् दिनांक-16.07.2018 (पूर्वाहन) से एवं उनके वरियता के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन मैट्रिक्स सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के स्तर-9 (रु.53,100-1,67,800/-) में प्रधान महालेखाकार सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई है एवं यदि कोई उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय हो उस पर आधारित है।

दिनांक-16.07.2018 के का.आ.ग.सं-353 में विहित अन्य शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

हस्ता/-

दिनमणि मल्लिक

उपमहालेखाकार (प्रशासन)

PRESIDENT'S SECRETARIAT
(ADMINISTRATION SECTION)

New Delhi, the 1st August, 2018

No. A.39011/17/16-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Vijay Kashyap, Under Secretary, President's Secretariat, stands retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st July, 2018.

SHIVENDRA CHATURVEDI

Under Secretary (Admn.)

No. A.39011/18/16-Admn. – On attaining the age of superannuation, Shri Jag Mohan, Under Secretary, President's Secretariat, stands retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st July, 2018.

SHIVENDRA CHATURVEDI

Under Secretary (Admn.)

New Delhi, the 2nd August, 2018

No.A-34011/3/16-Admn.—Shri Gopal Kumar, Assistant Section Officer, has been appointed as Section Officer w.e.f. the forenoon of 01.01.2018 vide Office Order dated 19.7.2018.

SHIVENDRA CHATURVEDI

Under Secretary (Admn.)

New Delhi, the 2nd August, 2018

No.A-34011/3/16-Admn.— Smt. Phulva Devi, Assistant Section Officer, has been appointed as Section Officer w.e.f. the forenoon of 01.01.2018 vide Office Order dated 01.01.2018.

SHIVENDRA CHATURVEDI

Under Secretary (Admn.)

New Delhi, the 2nd August, 2018

No.A-34011/3/16-Admn.— Smt. Mariamma Joseph, Section Officer and Smt. Usha Shashidharan, Section Officer, have been appointed as Under Secretary w.e.f. the forenoon of 01.08.2018 vide Office Order dated 19.07.2018.

SHIVENDRA CHATURVEDI

Under Secretary (Admn.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 26th August, 2018

F.No.A-12023/16/2005-Admn:III(LA).—On attaining the age of superannuation, Shri Bijender Paul Jain, retired from Govt. Service, as Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal, with effect from the afternoon of 28th March, 2018.

SUNEEL SACHDEVA
Under Secretary (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

(Administrative Division)

New Delhi, the 2nd August, 2018

No. DP/Pers. 1/2018/2901/03/53/2014.—In pursuance of DoPT's order No. 221/25/2017-AVD-II(B) dated 19/06/2018, Shri Neeraj Agarwal, DSP, CBI, BS&FC, Mumbai has been dismissed from service w.e.f. 29/06/2018, which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

D.P. SINGH
Admn. Officer (Pers)
CBI HO : New Delhi

MINISTRY OF HOME

New Delhi, the 1st August, 2018

No. I-14011/4/2018-IPS.I (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 25.07.2018 approved the Select List of the year 2017 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 18.05.2018, containing the name of the following State Police Service Officer of Himachal Pradesh towards filling up of 1 substantive vacancy in the Himachal Pradesh Cadre of Indian Police Service :—

Select List 2017

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Devakar Sharma	21.09.1975

AJAY KUMAR SINGH
Under Secretary

No. I-14011/4/2018-IPS.I (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Himachal Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Himachal Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2017

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Devakar Sharma	21.09.1975

2. The aforesaid officer will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officer will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

3. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

AJAY KUMAR SINGH

Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(PB-II SECTION)

New Delhi, the 19th July, 2018

No. 01/PB-II/2018.—On attaining the age of superannuation, Shri S. Sundarachari, PS [DOB: 03.03.1958], formerly Private Secretary [Grade-I Stenographer in Stenographers' Cadre of IFS(B)] in this Ministry, retired from the Government service in the afternoon of 31st March, 2018.

JITENDRA KUMAR SINGH

Administrative Officer (PB-II)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th July, 2018

No. D-III/460/CF-34/2017.—The President of India is pleased to recognize the appointment of Ms. Sangita Reddy Konda as the Honorary Consul of Brazil in Hyderabad with immediate effect. Her tenure is valid till 21 February 2020.

The consular jurisdiction of Ms. Sangita Reddy Konda comprise the State of Telangana, with the seat in Hyderabad.

The English version of the earlier Notification dated 11 May, 2018 stands cancelled.

D.C.D. DASS

Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 9th April, 2018

Notification No. 01 of 2018, F. No. A-39012/3/2017-Ad. VIA.—The President of India is pleased to accept the resignation of Dr. Prashant Khambra (04099), Addl.CIT from Central Government Service with effect from 03.02.2017 (A.N.).

YOGESH SHARMA

Under Secretary

New Delhi, the 31st May, 2018

Notification No. 02 of 2018, F. No. A-39012/2/2017-Ad. VIA.—The President of India is pleased to accept the resignation of Shri Pankaj Singhania (Civil Code-02034), Addl. CIT (Judicial), Kolkata from Central Government Service with immediate effect.

YOGESH SHARMA

Under Secretary

New Delhi, the 2nd July, 2018

Notification No. 03 of 2018, F. No. A-39012/15/2018-Ad. VIA.—The President of India is pleased to accept the resignation of Shri Raghuveer Singh Dagur, (01018), Addl. CIT, Jaipur from Central Government Service with immediate effect.

YOGESH SHARMA

Under Secretary

New Delhi, the 3rd July, 2018

Notification No. 04 of 2018, F. No. A-39012/01/2018-Ad. VIA.—The President of India is pleased to accept the resignation of Shri Rahul Singh, ACIT (140CA), Mumbai from Central Government Service with immediate effect.

YOGESH SHARMA

Under Secretary

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 5th July, 2018

No.A-19011/08/2018-Ad.Gztd.— The President is pleased to appoint Shri C.S. Mohapatra, (IES:86) as Additional Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 02.07.2018 in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 36/02/2018-EO(SM-I) dated 30th June, 2018.

SHOBA BASIL

Under Secretary

New Delhi, the 11th July, 2018

No.A-19011/09/2018-Ad.Gztd.— The President is pleased to appoint Shri K. Rajaraman, IAS (TN:89) as Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the afternoon of 06.07.2018 in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 36/02/2018-EO(SM-I) dated 30th June, 2018.

SHOBA BASIL

Under Secretary

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)
(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

New Delhi, the 26th June, 2018

No. A-31013/1/2018/Gr.A/1185-99.—In terms of the provisions of Rule 7 of ICAS (Gr.A) Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time, the President is pleased to appoint the following ICAS officers of 2014 batch in the Junior Time Scale in the Level 10 in the Pay Matrix in substantive capacity with effect from the dates shown against each:—

S. No.	Name	Date of Substantive Appointment
1.	Shri Shakeel Maqbool, ICAS(2014)	05.08.2017
2.	Dr. Maneesh Dwivedi, ICAS(2014)	05.08.2017
3.	Ms. Deepti Jindal, ICAS(2014)	21.05.2017
4.	Ms. Deepti Garg, ICAS(2014)	03.03.2018
5.	Shri Chandan Mittal, ICAS(2014)	21.12.2017
6.	Md. Shahid Kamal Ansari, ICAS(2014)	27.02.2017
7.	Ms. Karthika J. Kumar, ICAS(2014)	26.07.2017
8.	Shri Navneet Kumar, ICAS(2014)	05.08.2017
9.	Shri Narinder Pal Singh, ICAS(2014)	16.01.2017
10.	Ms. Poorva Meena, ICAS(2014)	08.04.2017

ROKHUM LALREMRUATA

Dy. Controller General of Accounts

New Delhi, the 31st July, 2018

No. A-11019/01/2018-EG.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Shankarrao Chanore as Welfare Officer in the Office of the Accountant General (Accounts and Entitlement)-II, Maharashtra, Nagpur in the scale of Rs.15,600–39,100/- (Grade Pay Rs.6,600/-)(pre-revised) (Level-11 in Pay Matrix-Revised) with effect from 02.07.2018(F/N) until further order.

HARI KISHORE

Under Secretary

No. A-11019/01/2018-EG.—The President is pleased to appoint Shri Deepak Kumar Dhingra as Welfare Officer in the Office of the Principal Accountant General (Audit), Punjab, Chandigarh in the scale of Rs.15,600–39,100/- (Grade Pay Rs.6,600/-)(pre-revised) (Level-11 in Pay Matrix-Revised) with effect from 11.06.2018(A/N) until further order.

HARI KISHORE

Under Secretary

No. A-11019/01/2018-EG.—The President is pleased to appoint Smt. Sudha Kannan as Welfare Officer in the Office of the Accountant General (Accounts and Entitlement), Tamil Nadu, Chennai in the scale of Rs.15,600–39,100/- (Grade Pay Rs.6,600/-)(pre-revised) (Level-11 in Pay Matrix-Revised) with effect from 08.06.2018(F/N) until further order.

HARI KISHORE

Under Secretary

No.A-11019/01/2018-EG.—The President is pleased to appoint Smt. Kaiser Marzaban Khairabadi as Welfare Officer in the Office of the Accountant General (Accounts and Entitlement)-I, Maharashtra, Mumbai in the scale of Rs.15,600–39,100/- (Grade Pay Rs.6,600/-)(pre-revised) (Level-11 in Pay Matrix-Revised) with effect from 02.07.2018(F/N) until further order.

HARI KISHORE

Under Secretary

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 18th July, 2018

No.A-11011/1/2018-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Arun Yadav, a private person, as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Chemicals & Fertilizers (Shri Rao Inderjeet Singh) in the Department of Chemicals and Petrochemicals in Level-11 (Rs. 67,700-Rs. 2,08,700) w.e.f. 01.05.2018 on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

T.P.N. SINGH

Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi, the 12th July, 2018

No.A-32011/01/2018-Estt.—The President is hereby pleased to appoint the following Scientist 'D' in this Department as Scientist 'E' in the Pay Level-13 (Rs.123100-215900/-) on in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) with effect from 1st July, 2018:

1. Dr. Vaishali Panjabi
2. Dr. Suraksha S. Diwan
3. Dr. Manoj Singh Rohilla
4. Dr. Shahaj Uddin Ahmed
5. Dr. Niloo Srivastava
6. Dr. Kakali Dey Dasgupta
7. Dr. Rajneesh Kumar Gaur
8. Dr. Vinita Nitin Chaudhary
9. Dr. Onkar Nath Tiwari.

J. P. MEENA

Under Secretary

No.A-32011/01/2018-Estt.—The President is hereby pleased to appoint Dr. Gulshan Wadhwa, Scientist 'E' in this Department as Scientist 'F' in the Pay Level-13 A (Rs.131100-216600/-) on in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) with effect from 1st July, 2018.

J.P. MEENA,

Under Secretary

MINISTRY OF AYUSH

New Delhi, the 11th July, 2018

F.No.A. 18011/4/2006-E.I. (AYUSH) (PT. I).—The President is to announce with regret the sad demise of Dr. Wadudul Hasan, Medical Officer (Unani) working under Central Government Health Scheme under CGHS, Delhi on 06.05.2015.

YASH VEER SINGH

Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(Variable Energy Cyclotron Centre)

Kolkata, the 11th July, 2018

No.VECC/Prom/2018/1828.—The President is pleased to appoint the undermentioned Outstanding Scientist of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Distinguished Scientist in the Level 16 of Pay Matrix of 7th CPC in the same Centre with effect from July 1, 2018, until further orders :—

Sl.No.	Name	Present post	Level of Pay Matrix
1.	Shri Amitava Roy	Outstanding Scientist	15

CVS SASTRY

Administrative Officer-III

Kolkata, the 12th July, 2018

No.VECC/Prom/2018/1984.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer/H of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Outstanding Scientist in the Level 15 of Pay Matrix of 7th CPC in the same Centre with effect from July 1, 2018, until further orders :—

Sl.No.	Name	Present post	Level of Pay Matrix
1.	Dr. Jane Alam	Scientific Officer/H	14

CVS SASTRY

Administrative Officer-III

Kolkata, the 13th July, 2018

No.VECC/Prom/2017/1889.—The President is pleased to appoint the undermentioned Technical Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Technical Officer (D) in the Level 11 of Pay Matrix of 7th CPC in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2017, until further orders :—

Sl.No.	Name	Present post	Level of Pay Matrix
1.	Shri Subhabrata Mazumder	Technical Officer (C)	10

CVS SASTRY

Administrative Officer-III

No.VECC/Prom/2017/1890.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (E) in the Level 12 of Pay Matrix of 7th CPC in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2017, until further orders :—

Sl.No.	Name	Present post	Level of Pay Matrix
1.	Dr. Arindam Kumar Sikdar	Scientific Officer (D)	11
2.	Shri Shuaib Ahmad Khan	Scientific Officer (D)	11
3.	Shri Yashwant Kumar	Scientific Officer (D)	11
4.	Shri Sabyasachi Chatterjee	Scientific Officer (D)	11
5.	Shri Ranadev Datta	Scientific Officer (D)	11
6.	Shri Sudhanshu Srivastava	Scientific Officer (D)	11

CVS SASTRY

Administrative Officer-III

No.VECC/Prom/2017/1891.— The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (D) in the Level 11 of Pay Matrix of 7th CPC in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2017, until further orders :—

Sl.No.	Name	Present post	Level of Pay Matrix
1.	Shri Manish Kumar Jha	Scientific Officer (C)	10
2.	Shri Arijit Sen	Scientific Officer (C)	10
3.	Kum. Ekata Nandy	Scientific Officer (C)	10
4.	Shri Kalavalapudi Srihari	Scientific Officer (C)	10

CVS SASTRY

Administrative Officer-III

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 11st March, 2018

No.A-32011/09/2013-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year-2012, the President is pleased to appoint the following ad-hoc Under Secretaries of CSS on regular basis in PB-3 with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from 23/02/2015 or until further orders:

S. No.	Name of Officer (S/Shri/Dr.)	CSL No.
1.	Arnab Dhaki	8452
2.	Subhendu Das	8459

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 29th July, 2015

No. A-22011/05/2013-E.I.—In pursuance of DoPT's OM No. 5/8/2013-CS.I(U) dated 22nd May, 2015, the following Under Secretaries of the Central Secretariat Service working in the Ministry of Human Resource Development are allowed to continue as Under Secretaries purely on ad-hoc basis for the period upto 31.12.2015 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier:

S.No.	Name	CSL No.
1	Achint Kumar	8550
2	Alok Jawahar	8318
3	A. K. Gopal	8474
4	Arnab Dhaki	8452
5	B. K. Sharma	8406
6	C. P. Ratnakaram	8264
7	Daulat Ram	8300
8	Deep Chand Lakra	8759
9	H. M. Sonkusare	8031
10	Kiran K. Arora	8224
11	K. D. Verma	8510
12	Manoj Kumar Shukla	8716
13	P. Bhaktavatslam	8322
14	Rajesh samplay	8748
15	Rajesh kumar Maurya	8204
16	Sachin Arora	8717
17	S. K. Narayan	8590
18	Subhendu Das	8459
19	Sushanta Kumar Saha	8635

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 13th August, 2015

No. A-22011/05/2013-E.I.—In pursuance of DoPT's OM No. 5/8/2013-CS.I(U) dated 22nd May, 2015, and in partial supercession of this ministry's notification of even number dated 29.07.2015 the following Under Secretaries of the Central Secretariat Service working in the Ministry of Human Resource Development are allowed to continue as Under Secretaries purely on ad-hoc basis for the period upto 31.12.2015 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier:

S.No.	Name	CSL No.
1	Achint Kumar	8550
2	Alok Jawahar	8381
3	A. K. Gopal	8474
4	B. K. Sharma	8406
5	C. P. Ratnakaram	8264
6	Daulat Ram	8300
7	Deep Chand Lakra	8759
8	H. M. Sonkusare	8031
9	Kiran K. Arora	8224
10	K. D. Verma	8510
11	Manoj Kumar Shukla	8716
12	P. Bhaktavatslam	8322
13	Rajesh samplay	8748
14	Rajesh kumar Maurya	8204
15	Sachin Arora	8717
16	S. K. Narayan	8590
17	Sushanta Kumar Saha	8635

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 9th September, 2015

No. A-32011/09/2013-E.I.— Consequent upon inclusion of his name for appointment to Grade-I of the Central Secretariat Service (Under Secretary) in the Select List for the Year-2013, the President is pleased to appoint Sh. Rajesh Samplay, (CSL No. 8748) as Under Secretary of CSS on regular basis in PB-3 with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from 31/08/2015 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi the 5th January, 2016

No.F.15-2905/2015-E.I.— In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No. 12015/03/2014-ISS dated 11th December, 2015, and being relieved from National Statistical Systems Training Academy (NSSTA) on 23.12.2015(AN), Ms.Ruchika Sharma, JTS of ISS(Probationer) is taken on the strength against the post of Assistant Director as Trainee in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, in the Pay Band-3 [Rs. 15600-39100] + Grade Pay of Rs. 5400 with effect from the afternoon of 23rd December, 2015 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH,

Under Secretary

New Delhi, the 10th May, 2016

No. A-22011/05/2013-E.I.— In pursuance of DoPT's OM No. 5/8/2013-CS.I(U) dated 07.12.2015, the following Under Secretaries of the Central Secretariat Service working in the Ministry of Human Resource Development are allowed to continue as Under Secretaries purely on ad-hoc basis for the period upto 30.06.2016 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier:

S.No.	Name (Sh./Smt./Mr./Mrs.)	CSL No.
1.	H. M. Sonkusare	8031
2.	S. K. Narayan	8590
3.	Sushanta Kumar Saha	8635
4.	Manoj Kumar Shukla	8716
5.	Sachin Arora	8717
6.	Kundan Nath	8780
7.	Vikas Tripathi	8804
8.	Sanjay Kumar	8854

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 4th July, 2016

No. A.32011/11/2014-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Kartikey Dhanji Budhhabhatti, IAS (BH: 2008) as Private Secretary to Hon'ble Minister of State for HRD (Shri Upendra Kushwaha) at the level of Under Secretary [PB.3 Rs. 15,600-39,100+ Rs. 6,600(G.P.)] on co-terminus basis with the Minister or for a period of five years w.e.f. 30.06.2016(AN) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders whichever event occurs the earliest.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 30th September, 2016

No. F.15-2876/2015-E.I.—Consequent upon his premature repatriation to his parent cadre, Dr. Subhash Chandra Khuntia, IAS (KN:1981), Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development is relieved of his duties w.e.f 30.09.2016(AN).

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 25th October, 2016

No. A-32011/5/2015.—In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No. No. 12015/03/2014-ISS(pt. I) dated 03.10.2016, the the President is pleased to appoint Shri Amit Kamal, ISS as Deputy Director in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from the afternoon of 21st October, 2016 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 28th October, 2016

F.No.A-32011/5/2016-E.I.—Consequent upon completion of their short-term Central Deputation Tenure, the following IAS officers of 2014 Batch presently working as Assistant Secretaries in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, shall stand relieved from their duties with effect from afternoon of 31.10.2016:

S.No.	Name of the Officer (Shri/Ms)	Cadre
1.	Prerna Sharma	AM
2.	Monica Priyadarshini	AGMUT
3.	Nima Arora	MH
4.	Pradeep Kumar Masilamani	TN

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 18th January, 2017

No. F.15-2960/2017-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar, IAS (NL:92) as Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development [Department of School Education & Literacy] with effect from the forenoon of 18.01.2017, in pay band of Rs. 37,400-67,000/-(PB-4) plus grade pay of Rs. 10,000/-[Revised Pay Matrix Level -14] for a period of five years or until further orders whichever is earlier vice Shri Jan-e-Alam, IAS (NL: 1991).

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 30th January, 2017

No.F.15-2961/2017-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Tirkey, IAS (MP:1987) as Joint Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 30.01.2017 vice Shri Y.S.K Seshu Kumar, IFS (UP:1987).

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 17th February, 2017

No. A-32011/5/2014-E.I.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 26th October, 2016, the president is pleased to extend the tenure of ad-hoc appointment of Dr. Nasim Ahmad, Assistant Educational Adviser as Deputy Educational Adviser in Level 12 in Pay Matrix for a further period of one year beyond 05.02.2017 or till regular arrangement is made or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 10th March, 2017

No.A.32011/1/2017.—Consequent upon her regular promotion to Senior Administrative Grade (SAG) of ISS vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No.12015/01/2017-ISS dated 28.02.2017 and assumption of the charge of the post on 3.03.2017(AN), the President is pleased to appoint Ms. R. Savithri, ISS as Deputy Director General in the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from the afternoon of 3rd March, 2017 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 2nd May, 2017

No.F.15-2965/2017-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Madhu Ranjan Kumar, IRSS (1984) as Joint Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from the afternoon of 01.05.2017 for a tenure upto his superannuation on 30.06.2021 or until further orders by temporarily upgrading a Director level post (vacant vice Shri Alok Mishra, IIS(1998) for a period of two years or till a regular Joint Secretary vacancy arises, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 5th May, 2017

No. A-32011/9/2016-E.I.—Consequent upon his regular promotion as Senior Statistical Officer (SSO) (Gazetted) of the Subordinate Statistical Services (SSS) vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Orders No. 12016/1/2016-SSS dated 20th April, 2017 and No. 11015/1/2017-SSS dated 27th April, 2017, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Junior Statistical Officer to the post of Senior Statistical Officer (SSO) (Gazetted) at Pay Level-7 in Pay Matrix, in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 04.05.2017 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 24th May, 2017

No. A-32011/9/2016-E.I.—Consequent upon his regular promotion as Senior Statistical Officer (SSO) (Gazetted) of the Subordinate Statistical Services (SSS) vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Orders No. 12016/1/2016-SSS dated 20th April, 2017 and No. 11015/1/2017-SSS dated 27th April, 2017, the President is pleased to appoint Shri Jagdish Kumar, Junior Statistical Officer to the post of Senior Statistical Officer (SSO) (Gazetted) at Pay Level-7 in Pay Matrix, in the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from the afternoon of 05.05.2017 or until further orders.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi the 5th July, 2017

F.No.A-32011/2/2017-E.I.—The President is pleased to appoint following IAS Officers of 2015 batch as Assistant Secretaries in Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development on Central Deputation basis with effect from 03.07.2017(FN) to 29.09.2017 or until further orders whichever is earlier:

S.No.	Name of the Officer	Cadre
1.	Shri Swapnil Tembe	AM
2.	Ms. Thameem Ansariya A	UP
3.	Shri Sandeep Kumar	PB
4.	Ms. Nitika Khandelwal	UD
5.	Shri Smrutiranjana Mohanty	WB

ACHINT KUMAR

Under Secretary

F.No.A-32011/3/2017-E.I.—The President is pleased to appoint following IAS Officers of 2015-Batch as Assistant Secretary in Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development on Central Deputation basis with effect from 3.7.2017 (FN) to 29-9.2017 or until further orders whichever is earlier :

S.No.	Name of the Officer	Cadre
1.	Shri Lakshmikanth Reddy G	KN
2.	Shri Sudhakar Shinde	TR
3.	Shri Pranay Singh	UP
4.	Shri Raju Mishra	WB

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 26th July, 2017

No. A.32011/09/2014-E.I.—Consequent upon his appointment as Additional Secretary in Ministry of Women & Child Development, Shri Ajay Tirkey, IAS (MP:1987), Joint Secretary in the Department of School Education & Literacy,

Ministry of Human Resource Development is hereby relieved of his duties with effect from the afternoon of 26th July, 2017 to take up his new assignment in the Ministry of Women & Child Development.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi the 5th July, 2017

F.No.A-32011/2/2017-E.I.—Consequent upon completion of their short-term Central Deputation Tenure, the following Assistant Secretaries (IAS of 2015 Batch) working in the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development, shall stand relieved of their duties with effect from afternoon of 29.09.2017:

S.No.	Name of the Officer	Cadre
1.	Shri Swapnil Tembe	AM
2.	Ms. Thameem Ansariya A	UP
3.	Shri Sandeep Kumar	PB
4.	Ms. Nitika Khandelwal	UD
5.	Shri Smrutiranjana Mohanty	WB

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi the 26th September, 2017

F.No.A-32011/3/2017-E.I.— Consequent upon completion of their short-term Central Deputation Tenure, the following Assistant Secretaries (IAS of 2015 Batch) working in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, shall stand relieved of their duties with effect from afternoon of 29.09.2017:

S.No.	Name of the Officer	Cadre
1.	Shri Lakshmikanth Reddy G	KN
2.	Shri Sudhakar Shinde	TR
3.	Shri Pranay Singh	UP
4.	Shri Raju Mishra	WB

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 28th September, 2017

No. A.32011/8/2014-E.I.—The President is pleased to appoint Dr. N. Saravana Kumar, IAS (BH:2000) as Joint Secretary in Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 27.09.2017 in Level-14 [Rs. 1,44,200-2,18,200] of pay matrix, for a tenure of overall five years i.e. upto 23.07.2019 or until further orders, whichever is earlier.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 13th November, 2017

No.A.11011/1/2016-E.I(Pt.).—Shri Ashwani Kumar, IAS(AM:2010), Officer on Special Duty in the personal staff of Hon'ble Minister of Human Resource Development [Shri Prakash Javadekar] in PB-3 with GP-Rs. 6600/- [Level-11] is hereby relieved of his duties with immediate effect.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 27th November, 2017

No.A. 32011/9/2014-E.I.— The President is pleased to appoint Shri V. Shashank Sekhar, IAS (NL:1996) as Joint Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from the afternoon of 24.11.2017 in Level-14 [Rs.1,44,200 - 2,18,200] of pay matrix, on lateral shift basis, for a tenure of overall five years i.e. up to 16.11.2019 or until further orders, whichever is earlier vice Ms. Anita Karwal, IAS (GJ:1988).

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 1st March, 2018

No.A. 32011/8/2014-E.I.— The President is pleased to appoint Shri R. Subrahmanyam, IAS(AP:85), Special Secretary, Department of Higher Education as Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development w.e.f 01.03.2018 (FN) on superannuation of Shri Kewal Kumar Sharma, IAS (UT:83) on 28.02.2018.

P. SASIKUMAR

Deputy Secretary

New Delhi, the 15th March, 2018

No. F.15-2995/2018-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Narayan, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 05.03.2018(F.N.), for a period up to 30.06.2018 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment is subject to the conditions stipulate in DoP&T's Order No. 5/7/2016-CS.I(U) dated 16.02.2018.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 3rd April, 2018

No.A.32011/8/2014-E.I.— The President is pleased to appoint Shri Girish C. Hosur, IFoS (HP:1996) as Joint Secretary in Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 31.03.2018 in Level-14 [Rs. 1,44,200 - 2,18,200] of pay matrix, for an overall tenure of five years i.e. up to 20.03.2021 or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Sukhbir Singh Sandhu, IAS (UD:1988).

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 3rd April, 2018

No.A.32011/7/2017-E.I.— The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Sharma, ITS (1990) as Private Secretary to the Minister of State for Human Resource Development (Dr. Satya Pal Singh) at the level of Director [PB-4 + GP-8700/-] (Pre-Revised) [Level-13 of Pay matrix] w.e.f 28.11.2017 (FN) and on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

2. Further, his tenure under Central Staffing Scheme as Director in the Department of Higher Education which otherwise would have expired on 23.06.2018 is curtailed accordingly.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 10th April, 2018

No.A.32011/8/2014-E.I.— The President is pleased to appoint Shri V.L.V.S.S. Subba Rao (IES: 1985), Economic Adviser, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development as Senior Economic Adviser in Department of Higher Education in Higher Administrative Grade (HAG) Scale in the service, in Level-15 of pay matrix (Rs. 1,82,200-2,24,100) with effect from 02.04.2018 (AN) against a vacant HAG level post temporarily transferred from M/o Petroleum and Natural Gas.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 9th July, 2018

No. 32011/10/2017-E.I.—The president is pleased to appoint Shri B. K. Bhadri, Assistant Education Adviser (Technical), Department of Higher Education to the post of Deputy Education Adviser(Technical) in level 12 of the Pay Matrix purely on ad-hoc basis for a period of six months with effect from the afternoon of 06.07.2018 or until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not bestow the officer any claim for regular promotion to the grade and ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

(UTTAR PRADESH STATE UNIT)

Lucknow, the 4th July, 2018

No: PF/1222/NIC/2018/Adm.—Shri Sumit Kumar Tripathi, Scientist-F (Emp. Code: 1222) of National Informatics Centre, Lucknow has expired on 31/05/2018.

ABU BAKAR

Scientist-E

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 30th July, 2018

No. ERB-I/2018/2/59.—The President is pleased to appoint Shri S.N. Agrawal, IRSE, General Manager, South Eastern Railway, as Member(Staff), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India with effect from afternoon of 20.07.2018.

RANJANESH SAHAI
Secretary, Railway Board

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
[ESTABLISHMENT (II) B]

New Delhi, the 31st July, 2018

No. A-32011/01/2016- E(II)B.—The Secretary is pleased to appoint Shri JamesTiru, Senior Technical Assistant, to the post of Technical Officer of General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non – Ministerial in Level – 7 of Pay Matrix on regular basis, with effect from 20.06.2018 to the post and until further orders.

KAMAL KISHORE
Under Secretary

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi, the 30th July, 2018

No. 49/9/2018-ADMIN-I Consequent upon his appointment under Central Staffing Scheme vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 20/1/20108-EO (MM-1) dated 13.07.2018, Shri Prasanth N., IAS (KL:2007) is taken on the strength of Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) as Deputy Secretary w.e.f. the forenoon of 30.07.2018.

ARVIND POKHRIYAL,
Under Secretary

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ODISHA

Bubaneswar, the 10th July, 2018

E.O.No:- 27.— Consequent on his acceptance of offer of promotion issued vide this office OOC No. 292 dated 02.07.2018, the Principal Accountant General (A&E) Odisha has been pleased to allow Shri Anirudha Pradhan, Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officers [Gr. 'B'-Gazetted] in Level-9 (₹ 53,100 - 1,67,800/-) of Pay Matrix of CCS (revised Pay) Rules 2016, with effect from the date of taking over charge i.e. on 02.07.2018 (FN) without prejudice to the claim of his seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any.

Other terms and conditions of OOC. No. 292 dated 02.07.2018 remain unchanged.

DINAMANI MALLICK
Deputy Accountant General (Admn.)

Bubaneswar, the 25th July, 2018

E.O. No:- 33.—Consequent on his acceptance of offer of promotion issued vide this office OOC No. 353 dated 13.07.2018, the Principal Accountant General (A&E) Odisha has been pleased to allow Shri Chitta Ranjan Patra, Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officer [Gr. 'B'-Gazetted] in Level-9 (₹ 53,100 - 1,67,800/-) of Pay Matrix of CCS (revised Pay) Rules 2016, with effect from the date of taking over charge i.e. on 16.07.2018 (FN) without prejudice to the claim of his seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any.

Other terms and conditions of OOC. No. 353 dated 16.07.2018 remain unchanged.

DINAMANI MALLICK

Deputy Accountant General (Admn.)